

क्या आप पृष्ठजाल business.gov.au पर दी गई जानकारी को अपनी भाषा में समझना चाहते/ चाहती हैं?

यदि आप अपनी इच्छित भाषा में जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहे/ रही हों, तो निम्नलिखित कड़ियाँ आवश्यक सेवा से संपर्क करने में आपकी सहायता कर सकती हैं:

- [आव्रजन और नागरिकता विभाग \(डी आई ए सी\) की अनुवाद और दुभाषिया सेवा \(टी आई एस\) राष्ट्रीय](#)
टी आई एस राष्ट्रीय 24 घण्टे, सप्ताह में 7 दिन दूरभाष के माध्यम से दुभाषिए उपलब्ध करता है, और पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर में कहीं से भी 13 14 50 पर दूरभाष द्वारा स्थानीय कॉल के मूल्य पर इससे संपर्क किया जा सकता है।
- [राष्ट्रीय अनुवादक और भाषांतरकार प्रमाणन प्राधिकरण \(नाटी\)](#)
नाटी प्रमाणित अनुवाद और भाषांतर व्यावसायिकों की एक सूची उपलब्ध कराता है। आप यह [सूची ऑनलाइन](#), देख सकते/ सकती हैं, या किसी प्रमाणित व्यावसायिक का पता लगाने में सहायता के लिए आप नाटी को उनकी हॉटलाइन पर दूरभाष से 1300 557 470 पर (ऑस्ट्रेलिया के अंदर) सीधे संपर्क कर सकते/ सकती हैं।
- [येलो पेजेज](#)
अनुवादकों और दुभाषियों की सूचना येलो पेजेज में "Interpreters" और/या "Translators" के अन्तर्गत प्राप्त की जा सकती है।
- [60 भाषाओं में सेंटरलिक के प्रकाशन](#)
सेंटरलिक 60 से भी अधिक भाषाओं में कई ऑनलाइन प्रकाशनों के अनुवाद उपलब्ध कराता है। प्रकाशनों में नवागंतुक प्रवासियों, अर्धकालिक और अनियमित कार्मिकों और ऑस्ट्रेलिया व अन्य देशों के बीच की सामाजिक सुरक्षा सहमतियों के बारे में जानकारी शामिल होती है।
- [आव्रजन और नागरिकता विभाग \(डी आई ए सी\)](#)
डी आई ए सी ने 23 अलग-अलग भाषाओं में पृष्ठजालों का अनुवाद किया है, जिनमें नवागंतुक प्रवासियों और वीजा के इच्छुक व्यक्तियों के लिए परामर्श दिया गया है।
- [ऑस्ट्रेलियाई कारीगरी](#)
ऑस्ट्रेलियाई कारीगरी के सूचना-पत्र कई भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिनमें मैसिडोनियाई, इंडोनेशियाई, अरबी, चीनी, यूनानी, इतालवी, कोरियाई, स्पेनी, वियतनामी और कम्बोडियाई शामिल हैं।
- [कर-कार्यालय के प्रकाशन](#)
कर-कार्यालय ए बी एन के लिए आवेदन करने और अन्य कर-संबंधी सूचना के बारे में

विदेशी भाषाओं में ऑनलाइन प्रकाशन उपलब्ध कराता है। इसके संस्करण अरबी, चीनी, क्रोएशियाई, फारसी, यूनानी, इतालवी, जापानी, कोरियाई, मैसिडोनियाई, रूसी, सर्बियाई, स्पेनी, तुर्की और वियतनामी भाषाओं में उपलब्ध हैं।